



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 408]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 24, 2017/ ज्येष्ठ 3, 1939

No. 408]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 24, 2017/ JYAISTHA 3, 1939

संचार मंत्रालय

(दूरसंचार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 मई, 2017

सा.का.नि.507(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय तार नियम, 1951 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात:-

1. संक्षिप्त नाम और लागू किया जाना:-

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय तार (छठा संशोधन) नियम, 2017 है।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय तार नियम, 1951 में,-

(i) नियम 525 के उपनियम (2) में, खंड (iv) में, निम्नलिखित मद को शामिल किया जाएगा। अर्थात:-

“(क) भारत नेट परियोजना के अंतर्गत सभी ग्राम पंचायतों अथवा गांवों तक अंतिम छोर कनेक्टिविटी को शामिल करते हुए ब्राडबैंड कनेक्टिविटी के विस्तार के लिए मैसर्स भारत ब्राडबैंड नेटवर्क लिमिटेड (बीबीएनएल) द्वारा दिनांक 27 मार्च 2017 से पांच वर्षों की अवधि के लिए वहन किया गया पूंजीगत व्यय तथा राजस्व के निवल प्रचालन व्यय का वित्त पोषण सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यूएसओएफ) से किया जाएगा ” ;

(ii) नियम 526 के “ खंड (iii)” के शब्दों, कोष्ठकों और अंको के स्थान पर “खंड (iii), खंड (iv) की मद (क)” के शब्द, कोष्ठक तथा अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

[फा.सं. 30-304/2017-यूएसएफ]

अमित यादव, संयुक्त सचिव (प्रशासन)

टिप्पणी: मुख्य नियम डाक एवं तार पुस्तिका का खंड 1, विधायी अधिनियमन, भाग-2, संस्करण में प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् निम्नलिखित अधिसूचना संख्या द्वारा संशोधित किए गए थे:-

- | | |
|--|---|
| 1. सा.का.नि. 190, दिनांक 18 फरवरी, 1984 | 37. सा.का.नि. 865, (अ)दिनांक 29 सितम्बर, 1989 |
| 2. सा.का.नि. 386, दिनांक 22 मई, 1984 | 38. सा.का.नि. 413, (अ)दिनांक 29 मार्च, 1990 |
| 3. सा.का.नि. 387, (अ) दिनांक 22 मई, 1984 | 39. सा.का.नि. 574, (अ)दिनांक 15 जून, 1990 |
| 4. सा.का.नि. 679, दिनांक 30 जून, 1984 | 40. सा.का.नि. 933, (अ)दिनांक 03 दिसम्बर, 1990 |
| 5. सा.का.नि. 428, दिनांक 27 अप्रैल, 1985 | 41. सा.का.नि. 985, (अ)दिनांक 20 दिसम्बर, 1990 |
| 6. सा.का.नि. 729, दिनांक 03 अगस्त, 1985 | 42. सा.का.नि. 74, (अ)दिनांक 18 जनवरी, 1991 |
| 7. सा.का.नि. 982, दिनांक 19 अक्टूबर, 1986 | 43. सा.का.नि. 237, (अ)दिनांक 25 अप्रैल, 1991 |
| 8. सा.का.नि. 553 (अ), दिनांक 27 मार्च, 1986 | 44. सा.का.नि. 251, (अ)दिनांक 02 मई, 1991 |
| 9. सा.का.नि. 314, दिनांक 26 अप्रैल, 1986 | 45. सा.का.नि. 543, (अ)दिनांक 21 मई, 1992 |
| 10. सा.का.नि. 566, दिनांक 26 जुलाई, 1986 | 46. सा.का.नि. 560, (अ)दिनांक 26 मई, 1992 |
| 11. सा.का.नि. 953, (अ)दिनांक 23 जुलाई, 1986 | 47. सा.का.नि. 587, (अ)दिनांक 10 जून, 1992 |
| 12. सा.का.नि. 1121, (अ)दिनांक 1 अक्टूबर, 1986 | 48. सा.का.नि. 730, (अ)दिनांक 19 अगस्त, 1992 |
| 13. सा.का.नि. 1167, (अ)दिनांक 28 अक्टूबर, 1986 | 49. सा.का.नि. 830, (अ)दिनांक 28 अक्टूबर, 1992 |
| 14. सा.का.नि. 1237, (अ)दिनांक 28 नवम्बर, 1986 | 50. सा.का.नि. 62, (अ)दिनांक 11 फरवरी, 1993 |
| 15. सा.का.नि. 49, दिनांक 17 जनवरी, 1987 | 51. सा.का.नि. 80, (अ)दिनांक 06 फरवरी, 1993 |
| 16. सा.का.नि. 112, (अ)दिनांक 25 फरवरी, 1987 | 52. सा.का.नि. 384, (अ)दिनांक 27 अप्रैल, 1993 |
| 17. सा.का.नि. 377, (अ)दिनांक 09 अप्रैल, 1987 | 53. सा.का.नि. 387, (अ)दिनांक 28 अप्रैल, 1993 |
| 18. सा.का.नि. 674, (अ)दिनांक 27 जुलाई, 1987 | 54. सा.का.नि. 220, (अ)दिनांक 26 मार्च, 2004 |
| 19. सा.का.नि. 719, (अ)दिनांक 18 अगस्त, 1987 | 55. सा.का.नि. 713, (अ)दिनांक 17 नवम्बर, 2006 |
| 20. सा.का.नि. 837, (अ)दिनांक 5 अक्टूबर, 1987 | 56. सा.का.नि. 193, (अ)दिनांक 01 मार्च, 2007 |
| 21. सा.का.नि. 989, (अ)दिनांक 17 दिसम्बर, 1987 | 57. सा.का.नि. 547, (अ)दिनांक 18 जुलाई, 2008 |
| 22. सा.का.नि. 337, (अ)दिनांक 11 मार्च, 1988 | 58. सा.का.नि. 49, (अ)दिनांक 27 जनवरी, 2010 |
| 23. सा.का.नि. 361, (अ)दिनांक 21 मार्च, 1988 | 59. सा.का.नि. 279, (अ)दिनांक 31 मार्च, 2010 |
| 24. सा.का.नि. 626, (अ)दिनांक 17 मई, 1988 | 60. सा.का.नि. 256, (अ)दिनांक 27 मार्च, 2012 |
| 25. सा.का.नि. 660, (अ)दिनांक 31 मई, 1988 | 61. सा.का.नि. 412, (अ)दिनांक 29 मई, 2012 |
| 26. सा.का.नि. 693, (अ)दिनांक 10 जून, 1988 | 62. सा.का.नि. 368, (अ)दिनांक 07 जून, 2013 |
| 27. सा.का.नि. 734, (अ)दिनांक 24 जून, 1988 | 63. सा.का.नि. 506, (अ) दिनांक 24 जुलाई, 2013 |
| 28. सा.का.नि. 606, दिनांक 14 जुलाई, 1988 | 64. सा.का.नि. 18, दिनांक 28 जनवरी, 2014 |
| 29. सा.का.नि. 812, (अ)दिनांक 26 जुलाई, 1988 | 65. सा.का.नि. 912, (अ)दिनांक 23 दिसम्बर, 2014 |
| 30. सा.का.नि. 888, (अ)दिनांक 01 सितम्बर, 1988 | 66. सा.का.नि. 653, (अ) दिनांक 25 अगस्त, 2015 |
| 31. सा.का.नि. 907, (अ)दिनांक 07 सितम्बर, 1988 | 67. सा.का.नि. 241, दिनांक 10 दिसम्बर, 2015 |
| 32. सा.का.नि. 916 (अ), दिनांक 9 सितंबर, 1988 | 68. सा.का.नि. 297(अ), दिनांक 28 मार्च, 2017 |
| 33. सा.का.नि. 1054, दिनांक 2 नवम्बर, 1988 | 69. सा.का.नि. 314(अ), दिनांक 31 मार्च, 2017 |
| 34. सा.का.नि. 179, दिनांक 18 मार्च, 1989 | 70. सा.का.नि. 406(अ), दिनांक 20 अप्रैल, 2017 |
| 35. सा.का.नि. 358, (अ)दिनांक 15 मार्च, 1989 | 71. सा.का.नि. 439(अ), दिनांक 02 मई, 2017 |
| 36. सा.का.नि. 622, (अ)दिनांक 15 जून, 1989 | 72. सा.का.नि. 482(अ), दिनांक 17 मई, 2017 |

MINISTRY OF COMMUNICATIONS**(Department of Telecommunications)****NOTIFICATION**New Delhi, the 22nd May, 2017

G.S.R. 507(E).— In exercise of the powers conferred by section 7 of the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Indian Telegraph Rules, 1951, namely:-

1. Short title and commencement :-

- (1) These rules may be called the Indian Telegraph (Sixth Amendment) Rules, 2017.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Indian Telegraph Rules, 1951, -

(i) in rule 525, in sub-rule (2), in clause (iv), the following item shall be inserted, namely:-

“(a) for extending the Broadband connectivity including last mile connectivity up to all Gram Panchayats or villages, under the Bharat Net project, the Capital expenses and Operating expenses net of revenue incurred by M/s Bharat Broadband Network Limited (BBNL) shall be funded by the Universal Service Obligation Fund (USOF) for a period of five years from the 27th March, 2017.”;

(ii) in rule 526, for the words, brackets and figures “of clause (iii)”, the words, brackets and figures “of clause (iii), item (a) of clause (iv)” shall be substituted.

[F. No. 30-304/2017-USF]

AMIT YADAV, Jt. Secy. (Admin)

Note: The principal rules were published in the Post and Telegraph Manual Volume I, Legislative Enactments, Part II, Edition and subsequently amended vide notification numbers –

- | | |
|--|---|
| 1. G.S.R. 190, dated the 18th February, 1984; | 22. G.S.R. 337(E), dated the 11th March, 1988; |
| 2. G.S.R. 386, dated the 22nd May, 1984; | 23. G.S.R. 361(E), dated the 21st March, 1988; |
| 3. G.S.R. 387(E), dated the 22nd May, 1984; | 24. G.S.R. 626(E), dated the 17th May, 1988; |
| 4. G.S.R. 679, dated the 30th June, 1984; | 25. G.S.R. 660(E), dated the 31st May, 1988; |
| 5. G.S.R. 428, dated the 27th April, 1985; | 26. G.S.R. 693(E), dated the 10th June, 1988; |
| 6. G.S.R. 729, dated the 3rd August, 1985; | 27. G.S.R. 734(E), dated the 24th June, 1988; |
| 7. G.S.R. 982, dated the 19th October, 1986; | 28. G.S.R. 606, dated the 14th July, 1988; |
| 8. G.S.R. 553(E), dated the 27th March, 1986; | 29. G.S.R. 812(E), dated the 26th July, 1988; |
| 9. G.S.R. 314, dated the 26th April, 1986; | 30. G.S.R. 888(E), dated the 1st September, 1988; |
| 10. G.S.R. 566, dated the 26th July, 1986; | 31. G.S.R. 907(E), dated the 7th September, 1988; |
| 11. G.S.R. 953(E), dated the 23rd July, 1986; | 32. G.S.R. 916(E), dated the 9th September, 1988; |
| 12. G.S.R. 1121(E), dated the 1st October, 1986; | 33. G.S.R. 1054, dated the 2nd November, 1988; |
| 13. G.S.R. 1167(E), dated the 28th October, 1986; | 34. G.S.R. 179, dated the 18th March, 1989; |
| 14. G.S.R. 1237(E), dated the 28th November, 1986; | 35. G.S.R. 358(E), dated the 15th March, 1989; |
| 15. G.S.R. 49, dated the 17th January, 1987; | 36. G.S.R. 622(E), dated the 15th June, 1989; |
| 16. G.S.R. 112(E), dated the 25th February, 1987; | 37. G.S.R. 865, dated the 29th September, 1989; |
| 17. G.S.R. 377(E), dated the 9th April, 1987; | 38. G.S.R. 413(E), dated the 29th March, 1990; |
| 18. G.S.R. 674(E), dated the 27th July, 1987; | 39. G.S.R. 574(E), dated the 15th June, 1990; |
| 19. G.S.R. 719(E), dated the 18th August, 1987; | 40. G.S.R. 933(E), dated the 3rd December, 1990; |
| 20. G.S.R. 837(E), dated the 5th October, 1987; | 41. G.S.R. 985(E), dated the 20th December, 1990; |
| 21. G.S.R. 989(E), dated the 17th December, 1987; | 42. G.S.R. 74(E), dated the 18th January, 1991; |

-
- | | |
|---|--|
| 43. G.S.R. 237(E), dated the 25th April, 1991; | 58. G.S.R. 49(E), dated the 27 January, 2010; |
| 44. G.S.R. 251(E), dated the 2nd May, 1991; | 59. G.S.R. 279(E), dated the 31st March, 2010; |
| 45. G.S.R. 543(E), dated the 21st May, 1992; | 60. G.S.R. 256(E), dated the 27th March, 2012; |
| 46. G.S.R. 560(E), dated the 26th May, 1992; | 61. G.S.R. 412(E), dated the 29th May, 2012; |
| 47. G.S.R. 587(E), dated the 10th June, 1992; | 62. G.S.R. 368(E) dated the 07th June, 2013; |
| 48. G.S.R. 730(E), dated the 19th August, 1992; | 63. G.S.R. 506(E) dated the 24th July, 2013; |
| 49. G.S.R. 830(E), dated the 28th October, 1992; | 64. G.S.R. 18 dated the 28th January, 2014; |
| 50. G.S.R. 62(E), dated the 11th February, 1993; | 65. G.S.R. 912(E) dated the 23rd December, 2014; |
| 51. G.S.R. 80(E), dated the 6th February, 1993; | 66. G.S.R. 653(E) dated the 25th August, 2015; |
| 52. G.S.R. 384(E), dated the 27th April, 1993; | 67. G.S.R. 241 dated the 10th December, 2015; |
| 53. G.S.R. 387(E), dated the 28th April, 1993; | 68. G.S.R. 297(E) dated the 28th March, 2017; |
| 54. G.S.R. 220(E), dated the 26th March, 2004; | 69. G.S.R. 314(E) dated the 31st March, 2017; |
| 55. G.S.R. 713(E), dated the 17th November, 2006; | 70. G.S.R. 406(E) dated the 20th April, 2017; |
| 56. G.S.R. 193(E), dated the 01st March, 2007; | 71. G.S.R. 439(E) dated the 2nd May, 2017; and |
| 57. G.S.R. 547(E), dated the 18th July, 2008; | 72. G.S.R. 482(E) dated the 17th May, 2017 |